



Pradeep Kumar Delhi

12 Nov 1985

12:45 PM

Jahanabad

Model: Web-MyKundli

Order No: 120591401

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: स्त्रीलिंग
जन्म तिथि _____: 12/11/1985
दिन _____: मंगलवार
जन्म समय _____: 12:45:00 घंटे
इष्ट _____: 16:40:01 घटी
स्थान _____: Jahanabad
राज्य _____: Bihar
देश _____: India

अक्षांश _____: 25:13:00 उत्तर
रेखांश _____: 84:59:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: 00:09:56 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 12:54:56 घंटे
वेलान्तर _____: 00:15:53 घंटे
साम्पातिक काल _____: 16:20:24 घंटे
सूर्योदय _____: 06:04:59 घंटे
सूर्यास्त _____: 17:03:22 घंटे
दिनमान _____: 10:58:22 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: हेमन्त
सूर्य के अंश _____: 26:11:32 तुला
लग्न के अंश _____: 03:11:58 कुम्भ

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: कुम्भ - शनि
राशि-स्वामी _____: तुला - शुक्र
नक्षत्र-चरण _____: विशाखा - 1
नक्षत्र स्वामी _____: गुरु
योग _____: सौभाग्य
करण _____: नाग
गण _____: राक्षस
योनि _____: व्याघ्र
नाड़ी _____: अन्त्य
वर्ण _____: शूद्र
वश्य _____: मानव
वर्ग _____: सर्प
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: वायु
जन्म नामाक्षर _____: ती-तीप्ति
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: रजत - ताम्र
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: वृश्चिक

Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1907	कार्तिक	21
पंजाबी	संवत : 2042	कार्तिक	27
बंगाली	सन् : 1392	कार्तिक	26
तमिल	संवत : 2042	आइपसी	27
केरल	कोल्लम : 1161	तुलम	27
नेपाली	संवत : 2042	कार्तिक	27
चैत्रादि	संवत : 2042	कार्तिक	कृष्ण 15
कार्तिकादि	संवत : 2042	आश्विन	कृष्ण 15

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 15
तिथि समाप्ति काल _____ : 19:50:24
जन्म तिथि _____ : 15
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : स्वाति
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 09:37:01 घंटे
जन्म योग _____ : विशाखा
सूर्योदय कालीन योग _____ : सौभाग्य
योग समाप्ति काल _____ : 20:21:48 घंटे
जन्म योग _____ : सौभाग्य
सूर्योदय कालीन करण _____ : चतुष्पाद
करण समाप्ति काल _____ : 09:43:10 घंटे
जन्म करण _____ : नाग
भयात _____ : 07:49:56
भभोग _____ : 52:30:39
भोग्य दशा काल _____ : गुरु 13 वर्ष 7 मा 11 दि

घात चक्र

मास _____ : माघ
तिथि _____ : 4-9-14
दिन _____ : गुरुवार
नक्षत्र _____ : शतभिषा
योग _____ : शुक्ल
करण _____ : तैत्तिल
प्रहर _____ : 4
वर्ग _____ : गरुड़
लग्न _____ : कन्या
सूर्य _____ : कन्या
चन्द्र _____ : मीन
मंगल _____ : तुला
बुध _____ : कर्क
गुरु _____ : वृश्चिक
शुक्र _____ : धनु
शनि _____ : सिंह
राहु _____ : मकर

Prem Pagare

Swatik Future Point


Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293


Email:- prempagare19@gmail.com

जन्म कुण्डली

लग्न कुंडली



चन्द्र कुंडली



Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

	रा		
ल			
गु			
	श बु	के चं सू शु	मं

लग्न कुंडली

	रा		
		ल	
		गु	
मं	शु सू	के चं	बु श

विंशोत्तरी
गुरु 13वर्ष 7मा 11दि
गुरु

12/11/1985

26/06/2103

गुरु	25/06/1999
शनि	24/06/2018
बुध	25/06/2035
केतु	24/06/2042
शुक्र	24/06/2062
सूर्य	24/06/2068
चन्द्र	24/06/2078
मंगल	24/06/2085
राहु	26/06/2103

योगिनी
धान्या 2वर्ष 6मा 19दि
भामरी

01/06/2024

01/06/2028

भामरी	11/11/2024
भद्रिका	02/06/2025
उल्का	31/01/2026
सिद्धा	11/11/2026
संकटा	02/10/2027
मंगला	11/11/2027
पिंगला	01/02/2028
धान्या	01/06/2028

Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			कुंभ	03:11:58	455:28:59	धनिष्ठा	3	23	शनि	मंगल	शुक्र	---
सूर्य			तुला	26:11:32	01:00:23	विशाखा	2	16	शुक्र	गुरु	केतु	नीच राशि
चंद्र			तुला	21:59:17	15:13:59	विशाखा	1	16	शुक्र	गुरु	शनि	सम राशि
मंगल			कन्या	16:09:09	00:37:30	हस्त	2	13	बुध	चंद्र	शनि	शत्रु राशि
बुध			वृश्चि	18:42:44	00:44:51	ज्येष्ठा	1	18	मंगल	बुध	केतु	सम राशि
गुरु			मक	15:59:24	00:07:17	श्रवण	2	22	शनि	चंद्र	शनि	नीच राशि
शुक्र			तुला	09:41:20	01:15:09	स्वाति	1	15	शुक्र	राहु	गुरु	मूलत्रिकोण
शनि		अ	वृश्चि	05:46:36	00:07:05	अनुराधा	1	17	मंगल	शनि	बुध	शत्रु राशि
राहु	व		मेष	15:33:49	00:00:14	भरणी	1	2	मंगल	शुक्र	सूर्य	शत्रु राशि
केतु	व		तुला	15:33:49	00:00:14	स्वाति	3	15	शुक्र	राहु	शुक्र	सम राशि
हर्ष			वृश्चि	22:52:34	00:03:22	ज्येष्ठा	2	18	मंगल	बुध	चंद्र	---
नेप			धनु	08:09:50	00:01:48	मूल	3	19	गुरु	केतु	गुरु	---
प्लूटो			तुला	11:37:57	00:02:22	स्वाति	2	15	शुक्र	राहु	शनि	---
दशम भाव			वृश्चि	13:16:30	--	अनुराधा	--	17	मंगल	शनि	राहु	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:39:22


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	मकर 19:52:43	कुम्भ 03:11:58
2	कुम्भ 19:52:43	मीन 06:33:29
3	मीन 23:14:14	मेष 09:54:59
4	मेष 26:35:45	वृष 13:16:30
5	वृष 26:35:45	मिथुन 09:54:59
6	मिथुन 23:14:14	कर्क 06:33:29
7	कर्क 19:52:43	सिंह 03:11:58
8	सिंह 19:52:43	कन्या 06:33:29
9	कन्या 23:14:14	तुला 09:54:59
10	तुला 26:35:45	वृश्चिक 13:16:30
11	वृश्चिक 26:35:45	धनु 09:54:59
12	धनु 23:14:14	मकर 06:33:29


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	कुम्भ	03:11:58
2	मीन	12:46:19
3	मेष	16:13:46
4	वृष	13:16:30
5	मिथुन	07:25:07
6	कर्क	02:31:27
7	सिंह	03:11:58
8	कन्या	12:46:19
9	तुला	16:13:46
10	वृश्चिक	13:16:30
11	धनु	07:25:07
12	मकर	02:31:27


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा
पूर्वाभाद्रपद	उभाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा
पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा	पूर्वाफाल्गुनी	उभाफाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति

चलित कुंडली



भाव कुंडली



Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : गुरु 13 वर्ष 7 मास 11 दिन

गुरु 16 वर्ष 12/11/1985 25/06/1999	शनि 19 वर्ष 25/06/1999 24/06/2018	बुध 17 वर्ष 24/06/2018 25/06/2035	केतु 7 वर्ष 25/06/2035 24/06/2042	शुक्र 20 वर्ष 24/06/2042 24/06/2062
12/11/1985	शनि 27/06/2002	बुध 20/11/2020	केतु 21/11/2035	शुक्र 24/10/2045
शनि 23/02/1988	बुध 07/03/2005	केतु 17/11/2021	शुक्र 20/01/2037	सूर्य 24/10/2046
बुध 31/05/1990	केतु 15/04/2006	शुक्र 17/09/2024	सूर्य 28/05/2037	चंद्र 24/06/2048
केतु 07/05/1991	शुक्र 15/06/2009	सूर्य 25/07/2025	चंद्र 27/12/2037	मंगल 24/08/2049
शुक्र 05/01/1994	सूर्य 28/05/2010	चंद्र 24/12/2026	मंगल 25/05/2038	राहु 24/08/2052
सूर्य 24/10/1994	चंद्र 27/12/2011	मंगल 21/12/2027	राहु 13/06/2039	गुरु 25/04/2055
चंद्र 23/02/1996	मंगल 04/02/2013	राहु 10/07/2030	गुरु 18/05/2040	शनि 24/06/2058
मंगल 29/01/1997	राहु 12/12/2015	गुरु 15/10/2032	शनि 27/06/2041	बुध 24/04/2061
राहु 25/06/1999	गुरु 24/06/2018	शनि 25/06/2035	बुध 24/06/2042	केतु 24/06/2062
सूर्य 6 वर्ष 24/06/2062 24/06/2068	चंद्र 10 वर्ष 24/06/2068 24/06/2078	मंगल 7 वर्ष 24/06/2078 24/06/2085	राहु 18 वर्ष 24/06/2085 26/06/2103	गुरु 16 वर्ष 26/06/2103 00/00/0000
सूर्य 12/10/2062	चंद्र 24/04/2069	मंगल 21/11/2078	राहु 06/03/2088	गुरु 13/08/2105
चंद्र 13/04/2063	मंगल 23/11/2069	राहु 09/12/2079	गुरु 31/07/2090	शनि 13/11/2105
मंगल 18/08/2063	राहु 25/05/2071	गुरु 14/11/2080	शनि 06/06/2093	00/00/0000
राहु 12/07/2064	गुरु 23/09/2072	शनि 24/12/2081	बुध 24/12/2095	00/00/0000
गुरु 30/04/2065	शनि 25/04/2074	बुध 21/12/2082	केतु 11/01/2097	00/00/0000
शनि 12/04/2066	बुध 24/09/2075	केतु 19/05/2083	शुक्र 12/01/2100	00/00/0000
बुध 17/02/2067	केतु 24/04/2076	शुक्र 18/07/2084	सूर्य 06/12/2100	00/00/0000
केतु 25/06/2067	शुक्र 24/12/2077	सूर्य 23/11/2084	चंद्र 07/06/2102	00/00/0000
शुक्र 24/06/2068	सूर्य 24/06/2078	चंद्र 24/06/2085	मंगल 26/06/2103	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशों के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल गुरु 13 वर्ष 7 मा 11 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

बुध - चंद्र 25/07/2025 24/12/2026	बुध - मंगल 24/12/2026 21/12/2027	बुध - राहु 21/12/2027 10/07/2030	बुध - गुरु 10/07/2030 15/10/2032	बुध - शनि 15/10/2032 25/06/2035
चंद्र 06/09/2025 मंगल 06/10/2025 राहु 23/12/2025 गुरु 02/03/2026 शनि 22/05/2026 बुध 04/08/2026 केतु 03/09/2026 शुक्र 28/11/2026 सूर्य 24/12/2026	मंगल 14/01/2027 राहु 10/03/2027 गुरु 27/04/2027 शनि 23/06/2027 बुध 13/08/2027 केतु 04/09/2027 शुक्र 03/11/2027 सूर्य 21/11/2027 चंद्र 21/12/2027	राहु 09/05/2028 गुरु 10/09/2028 शनि 05/02/2029 बुध 17/06/2029 केतु 10/08/2029 शुक्र 12/01/2030 सूर्य 28/02/2030 चंद्र 16/05/2030 मंगल 10/07/2030	गुरु 28/10/2030 शनि 08/03/2031 बुध 03/07/2031 केतु 21/08/2031 शुक्र 06/01/2032 सूर्य 16/02/2032 चंद्र 25/04/2032 मंगल 12/06/2032 राहु 15/10/2032	शनि 19/03/2033 बुध 06/08/2033 केतु 02/10/2033 शुक्र 15/03/2034 सूर्य 03/05/2034 चंद्र 24/07/2034 मंगल 19/09/2034 राहु 14/02/2035 गुरु 25/06/2035
केतु - केतु 25/06/2035 21/11/2035	केतु - शुक्र 21/11/2035 20/01/2037	केतु - सूर्य 20/01/2037 28/05/2037	केतु - चंद्र 28/05/2037 27/12/2037	केतु - मंगल 27/12/2037 25/05/2038
केतु 03/07/2035 शुक्र 28/07/2035 सूर्य 05/08/2035 चंद्र 17/08/2035 मंगल 26/08/2035 राहु 17/09/2035 गुरु 07/10/2035 शनि 31/10/2035 बुध 21/11/2035	शुक्र 31/01/2036 सूर्य 21/02/2036 चंद्र 28/03/2036 मंगल 22/04/2036 राहु 24/06/2036 गुरु 20/08/2036 शनि 27/10/2036 बुध 26/12/2036 केतु 20/01/2037	सूर्य 26/01/2037 चंद्र 06/02/2037 मंगल 13/02/2037 राहु 05/03/2037 गुरु 22/03/2037 शनि 11/04/2037 बुध 29/04/2037 केतु 06/05/2037 शुक्र 28/05/2037	चंद्र 15/06/2037 मंगल 27/06/2037 राहु 29/07/2037 गुरु 26/08/2037 शनि 29/09/2037 बुध 29/10/2037 केतु 11/11/2037 शुक्र 16/12/2037 सूर्य 27/12/2037	मंगल 05/01/2038 राहु 27/01/2038 गुरु 16/02/2038 शनि 11/03/2038 बुध 02/04/2038 केतु 10/04/2038 शुक्र 05/05/2038 सूर्य 13/05/2038 चंद्र 25/05/2038
केतु - राहु 25/05/2038 13/06/2039	केतु - गुरु 13/06/2039 18/05/2040	केतु - शनि 18/05/2040 27/06/2041	केतु - बुध 27/06/2041 24/06/2042	शुक्र - शुक्र 24/06/2042 24/10/2045
राहु 22/07/2038 गुरु 11/09/2038 शनि 10/11/2038 बुध 04/01/2039 केतु 26/01/2039 शुक्र 31/03/2039 सूर्य 19/04/2039 चंद्र 21/05/2039 मंगल 13/06/2039	गुरु 28/07/2039 शनि 20/09/2039 बुध 07/11/2039 केतु 27/11/2039 शुक्र 23/01/2040 सूर्य 09/02/2040 चंद्र 08/03/2040 मंगल 28/03/2040 राहु 18/05/2040	शनि 22/07/2040 बुध 17/09/2040 केतु 10/10/2040 शुक्र 17/12/2040 सूर्य 06/01/2041 चंद्र 09/02/2041 मंगल 05/03/2041 राहु 04/05/2041 गुरु 27/06/2041	बुध 18/08/2041 केतु 08/09/2041 शुक्र 07/11/2041 सूर्य 25/11/2041 चंद्र 25/12/2041 मंगल 15/01/2042 राहु 11/03/2042 गुरु 28/04/2042 शनि 24/06/2042	शुक्र 13/01/2043 सूर्य 15/03/2043 चंद्र 25/06/2043 मंगल 04/09/2043 राहु 04/03/2044 गुरु 14/08/2044 शनि 22/02/2045 बुध 14/08/2045 केतु 24/10/2045

Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	3
भाग्यांक	1
मित्र अंक	3, 5, 7, 9, 1
शत्रु अंक	4, 8
शुभ वर्ष	21,30,39,48,57
शुभ दिन	शुक्र, शनि, मंगल
शुभ ग्रह	शुक्र, शनि, मंगल
मित्र राशि	मकर, मिथुन
मित्र लग्न	वृष, तुला, धनु
अनुकूल देवता	लक्ष्मी
शुभ रत्न	नीलम
शुभ उपरत्न	जमुनिया, बिलौर
भाग्य रत्न	हीरा
शुभ धातु	लौह
शुभ रंग	काला
शुभ दिशा	पश्चिम
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	कस्तूरी, कृष्ण गौ, उपानह
दान अन्न	उड़द
दान द्रव्य	तेल

Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293


Email:- prempagare19@gmail.com

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
हीरा	शुक्र	99%	भाग्योदय, सुख
लहसुनिया	केतु	81%	भाग्योदय
नीलम	शनि	75%	व्यावसायिक उन्नति, कम खर्च, स्वास्थ्य
पन्ना	बुध	66%	व्यावसायिक उन्नति, सन्तति सुख, दुर्घटना से बचाव
माणिक्य	सूर्य	55%	भाग्योदय, दम्पति
पुखराज	गुरु	38%	व्यय, हानि, धन हानि
मोती	चंद्र	31%	नेष्ट भाग्य, शत्रु व रोग
मूंगा	मंगल	22%	दुर्घटना, पराक्रम हानि, व्यावसायिक हानि
गोमेद	राहु	9%	पराक्रम हानि, दुर्घटना



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
गुरु	25/06/1999	61%	44%	34%	53%	56%	86%	75%	9%	81%
शनि	24/06/2018	34%	6%	0%	72%	38%	100%	88%	22%	69%
बुध	25/06/2035	61%	6%	22%	78%	38%	100%	75%	9%	81%
केतु	24/06/2042	34%	6%	34%	66%	38%	100%	62%	0%	94%
शुक्र	24/06/2062	34%	6%	22%	72%	38%	100%	81%	22%	88%
सूर्य	24/06/2068	67%	44%	34%	66%	50%	86%	62%	0%	69%
चंद्र	24/06/2078	61%	53%	22%	72%	38%	99%	75%	0%	69%
मंगल	24/06/2085	61%	44%	47%	53%	50%	99%	75%	0%	88%
राहु	26/06/2103	34%	6%	0%	66%	38%	100%	81%	34%	69%

Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती तृतीय ढैया	12/11/1985-17/12/1987	-----	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	21/03/1990-20/06/1990	15/12/1990-05/03/1993	15/10/1993-10/11/1993
अष्टम स्थानस्थ ढैया	07/06/2000-23/07/2002	08/01/2003-07/04/2003	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	10/09/2009-15/11/2011	16/05/2012-04/08/2012	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	15/11/2011-16/05/2012	04/08/2012-02/11/2014	-----

द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती तृतीय ढैया	02/11/2014-26/01/2017	21/06/2017-26/10/2017	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	24/01/2020-29/04/2022	12/07/2022-17/01/2023	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	08/08/2029-05/10/2029	17/04/2030-31/05/2032	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	22/10/2038-05/04/2039	13/07/2039-28/01/2041	06/02/2041-26/09/2041
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	28/01/2041-06/02/2041	26/09/2041-11/12/2043	23/06/2044-30/08/2044

तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती तृतीय ढैया	11/12/2043-23/06/2044	30/08/2044-08/12/2046	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	06/03/2049-10/07/2049	04/12/2049-25/02/2052	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	27/05/2059-11/07/2061	13/02/2062-07/03/2062	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	30/08/2068-04/11/2070	-----	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	04/11/2070-05/02/2073	31/03/2073-23/10/2073	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया
अष्टम स्थानस्थ ढैया
साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया

फल

सम
सम
शुभ
अशुभ
शुभ

क्षेत्र

व्यावसायिक परेशानी
कम खर्च
सुख
दुर्घटना से बचाव
भाग्योदय

Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।

स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।।

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपकी कुंडली में जन्म के समय मंगल की स्थिति अष्टम भाव में है अतः आप एक मांगलिक कन्या हैं। चूंकि आपकी कुंडली में यह दोष भंग नहीं हो रहा है अतः इसके प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा पित जनित एवं रक्त विकार से आप यदा कदा कष्ट की अनुभूति करेंगी। साथ ही पति का स्वास्थ्य भी मध्यम रहेगा एवं उनके स्वभाव में तेजस्विता का भाव रहेगा। यदा कदा परस्पर संबंधों में मतभेद उत्पन्न होंगे लेकिन यह अल्प समय के लिए रहेगा तथा इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही समय समय पर आपके सांसारिक महत्व के कार्यों को सम्पन्न करने में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इसके प्रभाव से आपके विवाह में न्यूनाधिक मात्रा में विलम्ब होगा तथा विवाह पूर्व किसी वार्ता में बाधा भी आ सकती है परन्तु अन्त में आपको सफलता प्राप्त होगी। सामान्यतया सुख पूर्वक आपका दाम्पत्य जीवन व्यतीत होगा।

आपकी कुंडली में मंगल अष्टम भाव में है अतः आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा यदा कदा गर्मी आदि से आपको किंचित परेशानी की अनुभूति हो सकती है। सांसारिक महत्व के कार्यों को पूर्ण करने में भी आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से आय स्रोतों में वृद्धि होगी तथा आवश्यक मात्रा में लाभार्जन भी होता रहेगा परन्तु इस में आपको अधिक परिश्रम एवं पराक्रम का प्रदर्शन करना पड़ेगा। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि से पारिवारिक शान्ति मध्यम रहेगी तथा यदा कदा पारिवारिक जनों के मध्य मतभेद भी उत्पन्न होंगे। वाणी में ओजस्विता का भाव भी रहेगा परन्तु धनार्जन अच्छा रहेगा। तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से भाई बहनों का सुख एवं सहयोग मध्यम रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी जिससे आप अपने उन्नति मार्ग को प्रशस्त करने में समर्थ रहेंगी।

अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी एवं आनन्दमय बनाने के लिए आपको ऐसे

Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com

मांगलिक पुरुष से विवाह करना चाहिए जिससे आपका मांगलिक दोष भंग हो सके। इसके लिए पुरुष की कुंडली में मांगलिक स्थानों अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि या राहु की स्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार मांगलिक दोष भंग हो जाने पर आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी तथा ऐश्वर्य आदि से आप सुसम्पन्न होकर आनन्दपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगी। साथ ही परस्पर संबंधों में भी मधुरता तथा सहयोग का भाव विद्यमान रहेगा।



Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलार्द्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलार्द्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में वासुकि नामक कालसर्प योग विद्यमान है। लेकिन यह केवल आंशिक रूप में विद्यमान है। फलस्वरूप जातक का वैवाहिक जीवन सामान्य होते हुए कभी दुःखमय हो जाता है। पारिवारिक सदस्यों से किसी समय थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। भाई-बहनों से आंशिक रूप में दुःख उठाना पड़ता है। रिश्तेदार थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाते रहते हैं और मित्रगण से भी किसी समय जातक थोड़ी क्षति पाता है। घर में सुख शान्ति का आंशिक अभाव रहता है।

पूजा, पाठ, हवन, दान आदि धर्म कार्य में जातक को विशेष रुचि नहीं रहती है। भाग्योदय होने में आंशिक रूप से बाधाएँ आती हैं तथा नौकरी एवं व्यवसाय के क्षेत्र में किंचित संघर्ष करना पड़ता है और राजकीय सेवा के अवसर भी प्राप्त होते हैं तथा पराक्रम, यश, पद व प्रतिष्ठा के लिए आंशिक संघर्ष करना पड़ता है। जातक विदेश गमन करता है जिसमें थोड़ा बहुत कष्ट झेलना पड़ता है।

इस योग के कारण जातक को शारीरिक रोग-व्याधि समय-समय पर घेर लेती है। जिसमें सामान्य से विशेष खर्च हो जाने के कारण आर्थिक स्थिति नाजुक हो जाती है। कालान्तर में आर्थिक स्थिति सामान्य हो जाती है।

इस योग के कारण जातक कानूनी दस्तावेजों पर भावुकतावश हस्ताक्षर करके आंशिक रूप में नुकसान पाता है और राज्य पक्ष से भी जातक को अल्पमात्रा में प्रतिकूल फल प्राप्त होता है और नौकरी व्यवसाय में निलम्बित होने का भय बना रहता है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जातक अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है। विलम्ब से उत्तम भाग्य का निर्माण भी होता है और उन्नति के कई अवसर प्राप्त होते हैं।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें। अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. 'ॐ नमः शिवाय' का प्रतिदिन 108 बार जप करें। कुल जप संख्या- 21000।
3. ताम्बे के लोटे में नाग के जोड़े बहते पानी में एक बार प्रवाहित करें।
4. नवनाग स्तोत्र का एक वर्ष तक प्रतिदिन पाठ करें।
5. राहु के महादशा, अन्तर्दशा आने पर राहु मन्त्र के जाप कम से कम प्रतिदिन 108 बार करें। जप संख्या अद्वारह हजार (18000) है।
6. शुभ मुहूर्त में अभिमन्त्रित गोमेद धारण करें।
7. श्रावणमास में 30 दिन तक महादेव का अभिषेक करें।

8. सरस्वती जी की एक वर्ष विधिवत उपासना करें।
9. राहु कवच एवं स्तोत्र का पाठ करें।
10. प्रत्येक सोमवार को दही से भगवान शंकर पर - ॐ हर हर महादेव कहते हुए अभिषेक करें। यह केवल 16 सोमवार तक करें।
11. रसोईघर में बैठकर भोजन करें।
12. शुभ मुहूर्त में बहते पानी में कोयला तीन बार प्रवाहित करें।
13. गोमेद, सुवर्ण, तिल, सरसों, नीलवस्त्र, खड्ग, कम्बल, आदि समय-समय पर दान करें।
14. शुभ मुहूर्त में मुख्य द्वार पर चाँदी का स्वस्तिक एवं दोनो ओर धातु से निर्मित नाग चिपका दें।
15. हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें।

विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरांत पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियाँ अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ।।

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- सूर्य नवम् भाव में स्थित है तथा उस पर राहु का प्रभाव है ।
- चन्द्र नवम् भाव में स्थित है तथा उस पर राहु का प्रभाव है ।
- पंचम् भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है ।
- नवम् भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है ।

आपकी कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, बुध और शुक्र के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में सूर्य पितृदोष कारक ग्रह है अतः पिता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ गायत्री जप, सूर्योपासना, आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ, आक की समिधा से हवन करें । रविवार को गाय या बैल को गेहूँ और गुड़ खिलाएं ।

आपकी कुण्डली में चंद्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः माता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ सोमवार को प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं साथ ही शिव पंचाक्षरी “ॐ नमः शिवाय” का मंत्र जाप करें । दुर्गा, शिव या पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन करें । ढाक की समिधा व जड़ी-बूटियों से हवन करे तथा गौ-दान

करें।

आपकी कुंडली में बुध पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला सदस्य द्वारा बच्चों पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आप बहन, बुआ तथा मौसी की सेवा करके आशीर्वाद लें तथा तोते को हरी मिर्च खिलाकर पिंजड़े से मुक्त कर दें।

आपकी कुंडली में शुक्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ गरीब या जरूरतमंद स्त्रियों, कन्याओं को तथा पत्नी को दान दें। 11 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं को मंदिर में खीर खिलायें।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांड़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

नवमभाव में सूर्य होतो जातक साहसी, ज्योतिषी, नेता सदाचारी, तपस्वीयोगी, वाहनसुख, भृत्यसुख एवं पिता के लिए अशुभ होता है।

तुला राशि में रवि हो तो जातक मन्दाग्नि रोगी, आत्मबलहीन, मलीन व्यभिचारी, परदेशाभिलाषी, नैतिकता की कमी एवं दूसरों से दबने वाला होता है।

आपके जन्म काल में सूर्य नवम भाव में स्थित है अतः आपके पिता का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं समय समय पर वे शारीरिक रूप से कष्टानुभूति भी प्राप्त करते रहेंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह भाव रहेगा। धन धान्य का वे पूर्ण लाभार्जन करेंगे एवं जीवन में आपको सर्वप्रकार से आपको अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही आपके भाग्य की उन्नति में भी वे पूर्ण सहयोग एवं प्रेरणा आपको प्रदान करते रहेंगे।

आप भी उनका पूर्ण हार्दिक सम्मान करेंगी एवं प्रायः उनकी आज्ञा का पालन करती रहेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा किसी सैद्धान्तिक मतभेद पर इसमें कटुता या तनाव भी परिलक्षित होगा परन्तु कुछ समय के उपरान्त सब कुछ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। साथ ही जीवन में आप उनका सुख दुःख में पूर्ण ध्यान रखेंगी एवं उन्हें सर्वदा वांछित सहयोग तथा सहायता प्रदान करती रहेंगी।

चन्द्र

नवेंभाव में चन्द्रमा हो तो जातक विद्वान्, विद्याप्रिय, चंचल, न्यायी, प्रवास-प्रिय, कार्यशील, धर्मात्मा. सन्तति-सम्पत्तियुक्त सुखी, साहसी एवं अल्पभातृवान् होता है।

तुला राशि में चन्द्रमा हो तो जातक दीर्घदेही, आस्तिक, अन्नदाता, धनवान्, जमींदार, कुशाबुद्धिवाला, चतुर, उच्चाकांक्षाओं से रहित, सन्तोषी एवं परोपकारी होता है।

आपके जन्म काल में चन्द्रमा की स्थिति नवम भाव में स्थित है। अतः आपकी माता जी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा एवं आयु भी दीर्घ रहेंगी। माता की आप अत्यन्त ही प्रिय रहेंगी तथा जीवन में उनसे पूर्ण सहयोग तथा सुख संसाधनों को प्राप्त करेंगी। धन सम्पत्ति से वे प्रायः युक्त ही रहेंगी तथा आपको वांछित आर्थिक तथा अन्य सहायता को देने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगी। साथ ही आपकी भाग्योन्नति में भी उनका विशेष योगदान रहेगा।

आप भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखेंगी एवं सम्मान पूर्वक उनकी आज्ञा का अनुपालन करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगी। साथ ही आप आजीवन उनकी सुख सुविधा के लिए भी प्रयत्नशील रहेंगी। आप एक दूसरों से हमेशा सहमत रहेंगी एवं मतभेदों का प्रायः अभाव ही रहेगा। अतः आपके परस्पर संबंध मधुरता से युक्त रहेंगे इस प्रकार आप एक दूसरों के लिए शुभ रहेंगी।

मंगल

आठवेंभाव में मंगल हो तो जातक व्याधिस्त, व्यसनी, मद्यपायी, कठोरभाषी, उन्मत्त, नेत्ररोगी, शस्त्रचोर, संकोची, अग्निभीरु, धनचिन्ता युक्त एवं रक्तविकारयुक्त होता है।

कन्या राशि में मंगल हो तो जातक सुखी, शिल्पज्ञ, पापभीरु, लोकमान्य एवं व्यवहार कुशल होता है।

आपके जन्म समय में मंगल अष्टम भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक रूप से वे अस्वस्थ रहेंगे। आप उनकी प्रिय रहेंगी तथा आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह एवं सम्मान का भाव विद्यमान रहेगा। जीवन में आप समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में उन से आर्थिक तथा अन्य रूप से सहयोग अर्जित करती रहेंगी। धन धान्य का उनके पास अभाव नहीं रहेगा अतः यदा कदा विशिष्ट धन की प्राप्ति आप उनसे कर सकेंगी।

आप भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह भाव रखेंगी एवं अवसरानुकूल सुख दुःख में उनको अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगी। आपके आपसी संबंध भी ठीक ही रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण इनमें तनाव तथा कटुता की स्थिति भी उत्पन्न होगी लेकिन कुछ समय बाद स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही आप सुख दुःख में भी उनका सहयोग करने के लिए करने के लिए उद्यत रहेंगी।

बुध

दशमभाव में बुध हो तो जातक सत्यवादी, मनस्वी, व्यवहार कुशल, लोकमान्य, विद्वान, लेखक, कवि जमींदार, मातृ-पितृ भक्त, राजमान्य, न्यायी एवं भाग्यवान् होता है।

वृश्चिक राशि में बुध हो तो जातक व्यसनी, दुराचारी, मुख, ऋणी भिक्षुक, अनैतिक चरित्र, रतिक्रिया की अति करने वाला, गुप्तांगों के रोगों से पीड़ित, स्वार्थी एवं अपशब्द बोलने वाला होता है।

गुरु

द्वादश भाव में गुरु हो तो जातक मितभाषी, योगाभ्यासी, परोपकारी, उदार, आलसी, सुखी, मितव्ययी, शास्त्रज्ञ, सम्पादक, लोभी, यात्री एवं दुष्ट चित्तवाला होता है।

मकर राशि में गुरु हो तो जातक प्रवासी, द्रव्यहीन, व्यर्थपरिश्रमी, चंचलचित्त, धूर्त, असभ्य आचरण, दुःखी एवं ईर्ष्यालु होता है।

शुक्र

नवम भाव में शुक्र हो तो जातक धर्मात्मा, राजप्रिय, पवित्रतीर्थ यात्राओं का कर्ता,

दयालु, प्रेमी, गृहसुखी, गुणी, चतुर एवं आस्तिक होता है।

तुला राशि में शुक हो तो जातक विलासी, कलानिपुण, प्रवासी, यशस्वी, कार्यदक्ष, कुशाबुद्धि, उदार, दार्शनिक, सुन्दर, सुखी विवाहित जीवन, अभिमानी, बौद्धिक कामों में रुचि, कविता और उपन्यास लिखने में रुचि एवं संतुलित स्वभाव होता है।

शनि

दशम भाव में शनि हो तो जातक विद्वान्, ज्योतिषी, राजयोगी, न्यायी, नेता, धनवान्, राजमान्य, उदरविकारी, अधिकारी, चतुर, भाग्यवान् परिश्रमी, निरुद्ध्योगी एवं महत्त्वाकांक्षी होता है।

वृश्चिक राशि में शनि हो तो जातक संकीर्ण विचारों वाला, हिंसक, कठोरध्दय, उतावला, कमजोर स्वास्थ्य, बुरी आदतें, दुःखी, विष से खतरा, निर्धन स्त्रीहीन, क्रोधी, कठोर एवं लोभी होता है।

राहु

तृतीय भाव में राहु हो तो जातक योगाभ्यासी, विद्वान्, व्यवसायी, पराक्रमशून्य, दृढ़विवेकी, अरिष्टनाशक, प्रवासी, दीर्घायु एवं बलवान् होता है।

मेष राशि में राहु हो तो जातक-पराक्रमहीन, आलसी, अविवेकी एवं अनैतिक चरित्र होता है।

केतु

नवम भाव में केतु हो तो जातक सुखाभिलाषी, व्यर्थपरिश्रमी अपयशी, दुःखी एवं 48 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है।

तुला राशि में केतु हो तो जातक कुष्ठरोगी, दुःखी, क्रोधी एवं कामी होता है।

दशा विश्लेषण

**महादशा :- बुध
(24/06/2018 - 25/06/2035)**

बुध की महादशा 24/06/2018 को आरम्भ होगी और 17 वर्ष की होकर 25/06/2035 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में बुध दशम भाव में स्थित है। बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। इसके पूर्व आपकी 19 वर्ष की शनि दशा चल रही थी। शनि के कारण सन्तान से सुख और शत्रु पर विजय मिली होगी तथा कार्य स्थान में स्थिति अनुकूल रही होगी। बुध की इस दशा में आप को यश तथा ख्याति मिलेगी, जीवन में प्रगति होगी, सम्मान और उत्तम शिक्षा मिलेगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। आपमें भरपूर शक्ति, उत्साह तथा क्रियाशीलता रहेगी। मौसम में परिवर्तन के कारण हल्का ज्वर, विषाणु जन्य संक्रामक बीमारी, त्वचा रोग तथा स्नायविक दुर्बलता हो सकती है। अधिक मानसिक तथा शारीरिक श्रम से बचे।

अर्थ और व्यवसाय :

इस दशा के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ होगी। व्यवसाय तथा व्यापार से आय में वृद्धि होगी। जमीन-जायदाद से भी आय में वृद्धि होगी। आपको माता-पिता से लाभ मिल सकता है। सट्टे में लेन-देन लाभदायक होगा। जीविकोपार्जन के लिए लेखा, पत्रकारिता, शिक्षण, अन्तरिक्ष अनुसन्धान तथा सभी बौद्धिक कार्यों का चयन कर सकते हैं। सूती कपड़ा, रत्न, पुस्तक, लेखन सामग्री, कम्प्यूटर तथा हाथ से बने सामानों का व्यापार लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को सम्मान मिलेगा, आय में वृद्धि होगी तथा वरिष्ठ कर्मचारियों और उच्चाधिकारियों का अनुग्रह प्राप्त होगा। कार्य-स्थान में स्थिति अनुकूल होगी और अधीनस्थ कर्मचारियों तथा सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय तथा लाभ में वृद्धि होगी। व्यापार में विस्तार तथा व्यवसायियों के कार्य-क्षेत्र में वृद्धि होगी। आर्थिक तथा व्यावसायिक समृद्धि के लिए यह दशा उत्तम है।

वाहन, यात्रा, जमीन-जायदाद :

गुरु की अन्तर्दशा में आपको जीवन का सुख मिलेगा। जमीन-जायदाद से संबंधित लेन-देन लाभदायक होगा। चल-अचल सम्पत्ति से लाभ मिलेगा। वाहन सुख भी मिलेगा। मंगल की अन्तर्दशा में छोटी यात्रा तथा सूर्य की अन्तर्दशा में दूर की यात्रा होगी। कार्य के सिलसिले में यात्रा हो सकती है।

शिक्षा :

आपकी शिक्षा अति उत्तम होगी। आपकी शैक्षिक उपलब्धि आपकी जीविका की संभावना में वृद्धि करेगी। विज्ञान, लेखा, वाणिज्य, साहित्य तथा व्यापार के विषय में आपकी रुचि होगी। आप प्रतिभाशाली, कूटनीतिक तथा बहुमुखी हैं और विभिन्न विषयों में आपकी रुचि

Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com

है। आपका दिमाग विवेक पूर्ण व विश्लेषणात्मक है और आप सभी बौद्धिक कार्यों में अच्छा करेंगे।

परिवार :

आपको बच्चों से सुख मिलेगा। आपका उनके साथ सम्बन्ध बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी की अचल सम्पत्ति में वृद्धि होगी, उनके अनेक मित्र होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। आपका जीवन साथी के साथ सम्बन्ध उत्तम रहेगा। आपकी माता की विदेश यात्रा, साझेदारों से लाभ तथा आध्यात्मिक कार्यों में रुचि होगी। आपके पिता का धन-संग्रह और सुख की प्राप्ति होगी। आपके छोटे भाई-बहनों के कार्य में शुभ परिवर्तन और अचानक लाभ मिलेगा जबकि बड़ों का शुभ उद्देश्य के लिए व्यय होगा। आपका उनके साथ सम्बन्ध अति उत्तम रहेगा। इस दशा के दौरान आपको यश, सम्मान तथा सफलता मिलेगी।

अन्तर्दशा :

बुध की महादशा में बुध की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपको व्यवसाय में सफलता, यश और ख्याति मिलेगी। केतु कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। शुक्र की अन्तर्दशा में धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी जबकि सूर्य को अन्तर्दशा में व्यय तथा यात्रा होगी। चन्द्र की अन्तर्दशा के कारण हर प्रकार का लाभ मिलेगा। मंगल की अन्तर्दशा के दौरान छोटी यात्रा और कुछ बाधाएं हो सकती हैं। राहु की अन्तर्दशा में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। गुरु की अन्तर्दशा के दौरान सुख और साझेदारों से लाभ मिलेगा जबकि शनि की अन्तर्दशा के फलस्वरूप बच्चों से सुख मिलेगा।

Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com

**अंतर्दशा :- बुध - सूर्य
(17/09/2024 - 25/07/2025)**

आपके लिए बुध की महादशा 24/06/2018 को प्रारंभ हुई थी। इसमें चौथी अंतर्दशा सूर्य की होगी जिसकी अवधि 10 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 17/09/2024 को प्रारंभ होकर 25/07/2025 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी सूर्य स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मा का कारक है।

इस अवधि में आप सफल और समृद्ध बनेंगे। व्यापार में धन कमा सकते हैं। अध्यात्म में रुचि हो सकती है। लंबी यात्रा हो सकती है। उच्चशिक्षा के लिए प्रवेश मिल सकता है। सब सुख उपलब्ध रहेंगे। दक्षता में वृद्धि होगी। सब काम बन जाएंगे; उच्च पद और प्रसिद्धि का योग है। साहित्य और संचार माध्यम से लाभ हो सकता है।

आपके जीवनसाथी धनार्जन करेंगे, लघु यात्राएं और कार्यों में सफलता की संभावना है। आपके पिता को सफलता और कार्यों में प्रगति का सुख रहेगा। माता को धन, उच्चपद और आत्मिक उत्थान का संकेत है। आपके भाई-बहनों को साझेदारों से लाभ होगा, वांछित स्थान पर तबादला हो सकता है; विवाह, सफलता, सरकार से लाभ, धन और पिता से लाभ की संभावना है।

आपकी संतान को परीक्षा में सफलता मिलेगी; बौद्धिक शक्ति का विकास होगा। अगर वे कार्यरत हैं तो कार्यों में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

अगर आप सेवारत हैं तो साख में वृद्धि होगी। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ सकते हैं ; यात्राएं हो सकती हैं। व्यापारियों के लाभ और सक्रियता में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मामूली पित्तविकार हो सकता है। शुभत्व में वृद्धि के लिए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें।

**अंतर्दशा :- बुध - चन्द्र
(25/07/2025 - 24/12/2026)**

आपकी बुध की महादशा 24/06/2018 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में पांचवी अंतर्दशा चंद्रमा की होगी, जिसकी अवधि 1 वर्ष 5 मास होगी। आपके लिए यह 25/07/2025 को प्रारंभ होकर 24/12/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र माता, सरकारी कृपा और चेहरे की चमक का कारक है।

इस अवधि में आप धनी बनेंगे। दान-धर्म में रुचि होगी। समाजसेवी संस्था की स्थापना कर सकते हैं। प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। लंबी दूरी की लाभदायक यात्रा हो सकती है या रिश्तेदार आपके घर पर पधार सकते हैं। माता-पिता से संबंध उत्तम रहेंगे, उनसे लाभ होगा। कला और सहित्य में रुचि होगी। पड़ोसियों से संबंध मित्रवत रहेंगे।

आपके जीवनसाथी को कार्यों में सफलता मिलेगी, वे कला में रुचि लेंगे। आपके

पिता भाग्यशाली रहेंगे। माता बाधाओं और स्पर्धियों पर विजयी रहेंगी।

आपके भाई-बहनों को साझेदारी से लाभ होगा; कार्यक्षेत्र में सफल रहेंगे, बहुत से मित्र होंगे, संतान से सुख मिलेगा या शिशु का जन्म हो सकता है। आपकी संतान परीक्षा में सफल रहेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो निवेश से लाभ होगा, भाग्यशाली और धनी बनेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो साख में वृद्धि होगी, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे, सफलता मिलेगी। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ परिवर्तन हो सकता है। व्यापारी सामान बेचने में कुशलता द्वारा धन कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मामूली गठिया आदि व्याधि हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए किसी कन्या को वस्त्र दान में दें।

अंतर्दशा :- बुध - मंगल
(24/12/2026 - 21/12/2027)

आपके लिए बुध की महादशा 24/06/2018 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में छठी अंतर्दशा मंगल की होगी जिसकी अवधि 11 मास 27 दिन रहेगी। यह 24/12/2026 को प्रारंभ होकर 21/12/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल साहस, महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास का कारक है।

इस अवधि में आपको अचानक लाभ हो सकता है। पुराना वातावरण समाप्त हो कर नयी व्यवस्था स्थापित हो सकती है। पराविद्या में रुचि हो सकती है। पारिवारिक सुख मिलेगा। प्रसिद्धि और धन का संकेत है। शिक्षा उत्तम होगी। निवेश से लाभ हो सकता है। सुख के साधन उपलब्ध रहेंगे। विरोधियों पर विजय होगी। भाई-बहनों से संबंध मधुर रहेंगे।

आपके जीवनसाथी को घरेलू सुख मिलेगा। आपके पिता के खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्राएं होंगी। माता भाग्यशाली होंगी, उन्हें निवेश से लाभ होगा।

आपके भाई-बहनों के लिए सफलता, उच्चपद, कार्यक्षेत्र में सफलता का योग है। आपकी संतान की शिक्षा उत्तम रहेगी, परीक्षा में सफल होंगे। अगर वे कार्यरत हैं तो अचल संपत्ति क्रय करेंगे, वाहन सुख रहेगा, पारिवारिक वातावरण मधुर होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करेंगे। परामर्शदाता सफल रहेंगे, जबकि व्यापारी धन कमाएंगे।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पित्त और गर्मी से संबंधित व्याधि हो सकती है। अरिष्ट से बचाव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें।

**अंतर्दशा :- बुध - राहु
(21/12/2027 - 10/07/2030)**

आपके लिए बुध की महादशा 24/06/2018 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा राहु की होगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष 6 मास 18 दिन रहेगी। आपके लिए यह 21/12/2027 को प्रारंभ होकर 10/07/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक समृद्धि और अचानक, अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है।

इस अवधि में आपको लघु यात्राओं, प्रकाशन और लेखन से लाभ होगा। आप उत्साही, साहसी और दृढ़प्रतिज्ञ होंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धनी बनेंगे। कार्यों में लाभ होगा। आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। उच्च पद प्राप्त होगा, सांसारिक सुख मिलेगा। सत्कार्यों में रुचि होगी। शिक्षा में नाम होगा। विदेश यात्रा हो सकती है। छोटे भाई-बहनों में किसी का विवाह हो सकता है। आपके जीवनसाथी की यात्रा हो सकती है, भौतिक सुख मिलेंगे। आपके पिता को साझेदारी से लाभ होगा। माता के खर्चे बढ़ेंगे, यात्राएं होंगी, नये मित्रों से लाभ होगा। आपके भाई-बहनों के लिए सफलता, धनलाभ, उत्तम स्वास्थ्य, नये व्यापार की स्थापना, संतानसुख, निवेश में सफलता का संकेत है।

आपकी संतान को परीक्षा में सफलता मिलेगी, उनके प्रभावशाली मित्र होंगे। अगर वे कार्यरत हैं तो धनी बनेंगे, अच्छे आर्थिक अवसर मिलेंगे, लोगों से मदद मिलेगी।

अगर आप सेवारत हैं तो प्रसिद्ध बनेंगे, आय बढ़ेगी, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाता स्पर्धियों पर विजयी रहेंगे। व्यापारी भाग्यशाली रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए राहु मंत्र का जाप करें।

ॐ रां राहवे नमः

Prem Pagare

Swatik Future Point

Vijay Nagar indore pin 452010 Madhya Pradesh

Mo.No. 9826471293

Email:- prempagare19@gmail.com